



इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, जहाँ विश्वास है विश्वास का साथ।
हर ख्वाब को साकार करें, गुरु मा के साथ।

23% कैश बैक

आप फायनांस कराएं
किस्त हम देंगे



आज का आज !
सबसे तेज डिलीवरी एवं इंस्टॉलेशन

अब LED TV

मात्र ₹990/-

की मासिक किस्त में घर लायें

0 ब्याजमुक्त फाइनेंस पर

मनपसंद उत्पाद घर ले जाएं शेष राशि आसान
ब्याज मुक्त मासिक किस्तों पर सुरक्षा

BAJAJ FINSERV

HDFC BANK


HDB FINANCIAL SERVICES

SAMSUNG
Finance+

50% तक की छूट



उत्पादों पर
अतिरिक्त वारंटी
@290/- से



पुराना लाएं
नया ले जाएं

पुराने की अच्छी कीमत पर

— सभी प्रतिष्ठित ब्रांड एक ही छत के नीचे उपलब्ध —

SAMSUNG

Whirlpool

SONY

IFB

VOLTAS



BOSCH

Haier

DAIKIN

MITSUBISHI
ELECTRIC

AMSTRAD

SANSUI

PHILIPS

dyson

FABER
ART MATTERS

BLUE STAR

USHA

TOMASHI

Sympathiq

EUREKA
FORBES

KENT
Mineral RO*

DELL

hp

JBL

जैसे आपकी खाड़ियों, वैसी हमारी सेवाएं, सपनों को साकार करें



GURU MAA ELECTRONICS

-सूदपुर-

काशीपुर बाईपास (9690282777, 9756233166)

सिविल लाईंस (9927882338), सोनी सेन्टर (9917170230)

RUDRAPUR | HALDWANI | KASHIPUR | GADARPUR | MORADABAD | KICHHA | PITHORAGARH | LALKUAN | HARIDWAR

-कारीपुर-

रामनगर रोड (8791989500)

चीमा चौराहा (9927813555)

जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है धार्मिक आयोजन-धार्मी

उत्तरकाशी (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धार्मी ने उत्तरकाशी भ्रमण के दौरान श्री शक्ति मंदिर एवं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर देश व प्रदेश के विकास व जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने

का आयोजन किया गया है। आचार्य डॉ.

शशांक शेखर द्वारा श्रीमद्भगवत् कथा का वाचन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर देश सिंह धार्मी ने इस कथा ज्ञान यज्ञ में व्यासपीठ का अभिनन्दन करने और कथा श्रवण करने के उपरांत उपस्थित



मंदिर परिसर में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भगवत् कथा ज्ञान यज्ञ में प्रतिभाग कर अन्य श्रद्धालुओं के साथ जमीन पर बैठकर कथा सुनी। मुख्यमंत्री के समन्वयक किशोर भट्ट एवं उनके परिजनों द्वारा शक्ति मंदिर के पुजारी रहे ख्व. मुरारी लाल भट्ट के वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में श्रीमद्भगवत् कथा ज्ञान यज्ञ

जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से हमें जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हमें इस तरह के धार्मिक आयोजन कराने के लिए ख्व. मुरारी लाल भट्ट के वार्षिक श्राद्ध के प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धार्मी ने कहा कि देवभूमि में धार्मों की पवित्रता

जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जिसके फलस्वरूप पिछले करीब तीन साल में साढ़े अठारह हजार से अधिक योग्य युवाओं को उनकी प्रतिभाव के बूते नौकरी दी गई है। इस अवसर पर श्रीमद्भगवत् कथा आयोजक मुख्यमंत्री

जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह मंड के निधन पर शोक व्यक्त

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। जिला बार एसोसिएशन के समस्त सदस्यों एवं समस्त न्यायिक पीठासीन अधिकारीण की शोकसभा का आयोजन न्यायालय भवन में जिला बार अध्यक्ष दिवाकर पाण्डे की अध्यक्षता एवं सचिव सर्वेश कुमार सिंह के संचालन में हुआ। जिसमें किछी स्थित मंड फार्म के निवासी व जिला बार के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह मंड के गंभीर बीमारी के चलते दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो जाने पर गहरा दुःख व्यक्त किया गया। वहाँ जिला बार एसोसिएशन के सदस्य जवाहर नगर निवासी संजय कुमार सिंह एडवोकेट की पूज्यनाय माताजी का भी निधन हो गया।

जिस कारण समस्त अधिवक्तागण एवं समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा आयोजित शोकसभा में दो मिनट का मौन धारण करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई तथा परमपिता परमेश्वर से कामना की गई कि वह दिवंगत आत्मा को अपने पावन चरणों में सहज अदाजा लगाया जा सकता है कि चरणों के हौसले वहाँ किस कदर बुलंद है।

पुलिस को मामले की तहरीर दे दी गई। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 21 मोहल्ला मझार निवासी नईम सलमानी मंगलवार की शाम पल्ली एवं बच्चों के साथ लगभग 4:00 बजे अपनी काले रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल संख्या यूके 06ए/8648 से मुरादाबाद रोड स्थित बंधन पैलेस में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने गए। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बंधन पैलेस परिसर में खड़ी मोटरसाइकिल पर घात लगाए चोरों ने हाथ साफ कर दिया।

एसपी ऑफिस के पास से बाईंक चोरी

काशीपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक के बाद एक घटित हो रही बाइक चोरी की घटनाओं से असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। एसपी कार्यालय के सामने स्थित बंधन पैलेस परिसर में खड़ी तालाबंद मोटरसाइकिल चोरों ने उड़ा दी। घटनास्थल से बामुशिकल कुछ कदम की दूरी पर एसओजी कार्यालय भी है इससे सहज अदाजा लगाया जा सकता है कि चरणों के हौसले वहाँ किस कदर बुलंद है।

पुलिस को मामले की तहरीर दे दी गई। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 21 मोहल्ला मझार निवासी नईम सलमानी मंगलवार की शाम पल्ली एवं बच्चों के साथ लगभग 4:00 बजे अपनी काले रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल संख्या यूके 06ए/8648 से मुरादाबाद रोड स्थित बंधन पैलेस में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने गए। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बंधन पैलेस परिसर में खड़ी मोटरसाइकिल पर घात लगाए चोरों ने हाथ साफ कर दिया।

आवश्यकता है

श्री वर्धमान किराना मर्चेंट गोल मार्किट रुद्रपुर में कस्टमर हैंडलिंग/सेल्स के लिए युवक एवं युवतियों की आवश्यकता है।

-संपर्क करें-

9359927216

आकृति सोसायटी ने बच्चों को बांटी मिठाई

हल्दानी (उद संवाददाता)।

आकृति सोसायटी द्वारा निर्धन बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान कैम्प में आकर बच्चों से मुलाकात की गई और उनके लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। सोसायटी की शालिनी गुप्ता व सुचित्रा जायसवाल ने बच्चों को दीपावली की मिठाई बांटी। कैम्प में जिन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता दूसरे प्रदेशों से कार्य करते हैं।



उनके बच्चों के लिए शिक्षा अत्यधिक कठिन होती है क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते ऐसे बच्चों को आकृति सोसायटी शिक्षा के साथ संगीत, मनोरंजन, पैटिंग, सिंगिंग आदि का प्रशिक्षण देकर उनके भविष्य को बेहतर बनाने हेतु कार्य करती है। इस दौरान सोसायटी की अध्यक्ष कुमुम दिगारी, दीपा, हिमानी, कर्णवीर दिगारी, विनुषी, कोमल, हर्ष वर्द्धन पांडे उपस्थित हैं।

उपनल कर्मी 11 को सचिवालय कूच की तैयारियों में जुटे

किंचि (उद संवाददाता)। उपनल

कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर 11 नवंबर को सचिवालय कूच के कार्यक्रम के तहत जनपद में जोरों पर तैयारी की जा रही है। ऑप्शनल कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष रवि विश्वकर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कर्मचारियों को समान कार्य पर समान वेतन दिए जाने के फैसले पर मोहर लगाए जाने के बाद प्रदेश के सभी जनपदों के तथा सभी विभागों में तैतात तमाम उपनल कर्मचारी सरकार के घेरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उल्लेखनीय है कि ओप्शनल कर्मचारियों के पक्ष में वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय द्वारा समान वेतन सक्षमता के निर्णय दिया था। जिस पर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने के कारण प्रकरण उच्चतम न्यायालय में चला गया था। जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश परित करते हुए कर्मचारियों को राज्य स्थापना दिवस पर तोहफा प्रदान करें। उन्होंने कहा उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया गया है ऐसे में मुख्यमंत्री श्री धार्मी के समक्ष कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। इस अवसर पर उपनल कर्मचारी महासंघ के सूर्योदय कार्यक्रम योगेश जोशी, मोहन पलड़िया, विपिन पांडे आदि ने अपने वक्तव्य में सरकार से उपनल कर्मचारियों की मांग को राज्य स्थापना दिवस पर मानने की अपील की।



को कर्मचारियों के पक्ष में कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। ऑप्शनल कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष रवि विश्वकर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय द्वारा समान वेतन सक्षमता के निर्णय देते हुए समान कार्य समान वेतन लागू करने का क्रमबद्ध नियमितीकरण किया जाए किंतु सरकार द्वारा अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है जिस वजह से

न्यायालय में ले जाया गया जहां पर 15 अक्टूबर 2024 को उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए सरकार को निर्देशित कर दिया गया कि समान कार्य समान वेतन व्यवस्था लागू करते हुए कर्मचारियों का क्रमबद्ध नियमितीकरण किया जाए किंतु सरकार द्वारा मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है जिस वजह से

अमर इंटरनेशनल स्कूल में दो दिवसीय संस्कृत प्रतियोगिता 13 से

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, भारतीय संस्कृति

एवं प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से संस्कृत प्रतियोगिता का हर वर्ष खण्ड स्तर, जनपदीय स्तर एवं प्रदेश स्तर पर आयोजन करती है। इस वर्ष जनपदीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन आगामी 13 व 14 नवम्बर को अमर इंटरनेशनल स्कूल, भूरानी में प्रातः 09:30 बजे से आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए कालेज के प्रधानाचार्य एनएल गंगवार ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों के विज्ञान एवं तकनीकी क्षमताओं को विकास करना। इ

उत्तराखण्ड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: सीएम

उत्तरकाशी (उद्द संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के एक दिवसीय भ्रमण पर जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने जिले में संचालित विकास योजनाओं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को तेजी से विकास के रस्ते पर आगे बढ़ाने और जनता की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने अनेक गेम चेंज योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को देवभूमि उत्तराखण्ड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरी तर्फता व प्रतिबद्धता से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का पूरा खनन से मात्र 200 करोड़ का राजस्व लाभ प्राप्त व्यक्तियों तक पहुंचाने एवं जिले से ही 1200 करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद है। जबकि पहले खनन से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर विकास को गति देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार करने के लिए जिला, ब्लॉक व न्याय पंचायत स्तर तक शिविर आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन योजना की जन-प्रतिनिधियों को भी पूरी जिलकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि तेजी से विकास और जनकल्याण की राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं और प्रयासों का पूरा लाभ राज्यवासियों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिन-रात इमानदारी से जुटे रहना होगा। मुख्यमंत्री ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सड़क के उत्तरकाशी से भैरोघाटी तक सड़क के विवाह के अंतर्गत श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी एसएल सेमवाल, अपर जिलाधिकारी रजा अब्दास, बीआरओ के कमांडर विवेक श्रीवास्तव, भाजपा के जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह राणा, ब्लॉक प्रमुख भट्टवाड़ी विनीत रावत, ब्लॉक प्रमुख डुंडा शैलेंद्र कोहली, ब्लॉक प्रमुख मोरी बचन सिंह पंवार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।



राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम

रुद्रपुर (उद्द संवाददाता)। राज्य स्थापना के 25 वां रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करते हुए कार्यक्रम अयोजित किये जायेंगे। रुपरेखा पर विस्तृत चर्चा करते हुए जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने

सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि दौरान राज्य निर्माण के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी जायेगी व राज्य निर्माण आन्दोलन कारियों को समनित किया जायेगा, इस हेतु सम्बन्धि

निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य स्थापना दिवस के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिन विभागों को जो दायित्व दिये गये हैं उनका सम्बन्धित विभाग

त्रुटिहात निवाहन करना सुनिश्चित करें। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शक्ति विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जाशी, पंकज उपराज्यपाल एवं जिलाधिकारी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा अल्मोड़ा में हुए सड़क दुर्घटना के कारण राज्य स्थापना दिवस को साथ मनाने का

सीएमओ डॉ मनोज शर्मा, प्रभारी अधिकारी कलेक्टर गैरव पाण्डेय, अमृता शर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत, जीएम डीआईसी विपिन कुमार, डीओ पीआरडी बीएस रावत आदि उपस्थित थे।

त अधिकारी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा अल्मोड़ा में हुए सड़क दुर्घटना के कारण राज्य स्थापना दिवस को साथ मनाने का एक तमंचा और एक जिंदा कोरले कोली बांटी कोली पर रुद्रपुर कोतवाली और ट्रायोर कैम्प थाने में आधा दर्जन मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज रत्नाली को यह जानकारी मिली कि बांटी कोली रम्पुर में धूम रहा है। सूचना मिलते ही वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बांटी को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से पुलिस ने 315 बार का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। प्रभारी निरीक्षक मनोज रत्नाली ने बताया कि बांटी कोली पर रुद्रपुर कोतवाली और ट्रायोर कैम्प थाने में आधा दर्जन मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज रत्नाली के साथ एसएसआई ललित रावल, एसआई नवीन बुधानी, एसआई नवीन जोशी, कांस्टेबल अमित जोशी व महेंद्र कुमार शामिल थे।

जिला बदर बंटी कोली तमंचा और कारतूस समेत गिरफ्तार

रुद्रपुर (उद्द संवाददाता)। करीब दो माह पूर्व जिला बदर किये गये एक बदमाशों को पुलिस ने शहर में अवैध तमंचा के साथ धूमते गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर करीब दो माह पूर्व बांटी कोली पुत्र महावीर कोली निवासी वार्ड नंबर 23 निकट कठोरी मंदिर रम्पुर को जिला बदर किया गया था। गत साल प्रभारी निरीक्षक मनोज रत्नाली को यह जानकारी मिली कि बांटी कोली रम्पुर में धूम रहा है। सूचना मिलते ही वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बांटी को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से पुलिस ने 315 बार का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। प्रभारी निरीक्षक मनोज रत्नाली ने कहा कि बांटी कोली पर रुद्रपुर कोतवाली और ट्रायोर कैम्प थाने में आधा दर्जन मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज रत्नाली के साथ एसएसआई ललित रावल, एसआई नवीन बुधानी, एसआई नवीन जोशी, कांस्टेबल अमित जोशी व महेंद्र कुमार शामिल थे।

सड़क में मिली नशे की टेबलेट खाने से दो मासूम बच्चियां गंभीर

लापरवाही से आफत में पड़ी मासूमों की जान

सितारगंज (उद्द संवाददाता)। सप्ताह में बिखरी नशे की प्रतिबंधित दवाइयों की टेबलेट खेल खेल में खाने से 4 वर्षीय, तीन वर्षीय दो मासूम बहनों की हालत बिगड़ गई। दोनों बच्चियों अंजीब हरकतें कर बेहोश हो गई। बच्चियों की मां ने उनके हाथ में नशे की प्रतिबंधित दवाइयों का ऐपर देखा। तब जाकर उन्हें इसका पता लग सका। इसके बाद स्वजन ने आनन्द फानन में गंभीर हालत देखते हुए दोनों बहनों को उप जिला चिकित्सालय में भर्ती बिटियों ने सड़क में पड़ी नशे की प्रतिबंधित दवाइयों की टेबलेट खेल खेल में खा देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। किछी रोड के ग्राम अलीनगर शहदौरा निवासी निसार अहमद की 3 वर्षीय पुत्री

आयत, 4 वर्षीय पुत्री इनायत अंगनबाड़ी स्कूल में पड़ने जाती हैं। निसार अहमद के अनुसार बुधवार की दोपहर उसकी दोनों बहनों को उप जिला चिकित्सालय में भर्ती बिटियों ने सप्ताह में पड़ी नशे की प्रतिबंधित दवाइयों की टेबलेट खेल खेल में खा देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। किछी रोड के ग्राम अलीनगर शहदौरा निवासी निसार अहमद की 3 वर्षीय पुत्री

चौड़ीकरण के प्रस्तावित कार्य को लेकर सीमा सड़क संगठन से पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री धाम व सीमांत क्षेत्रों को जोड़ने वाली इस सड़क के चौड़ीकरण को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर वार्ता कर इस काम को यथाशील प्रारंभ कराने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यमुनोत्री हाईवे के चौड़ीकरण की प्रगति को भी जानकारी लेते हुए इस मार्ग पर चौड़ीकरण और भूस्खलन उपचार के प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सड़कों को गड्ढामुक्त करने की प्रगति की जानकारी लेते हुए सड़क सुरक्षा के उपायों पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए क्रैश वैरियर लगाने के लिए सर्वाधिक धनराशि दी है। उन्होंने कहा कि कार्यों को दिन-रात इमानदारी से जुटे रहना होगा। मुख्यमंत्री ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए इस सड़क के उत्तरकाशी से भैरोघाटी तक सड़क के

विवाह के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र में पीएमजीएसवाई द्वारा प्रस्तावित सड़कों के लिए बन विभाग की अनुमति से संबंधित कार्यवारी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश देते दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की रोक हटने के बाद अब कर्ताई देरी न की जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 536 योजनाओं में से 430 पर कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष 106 योजनाओं को कार्य भी समय से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी डॉ. मेरहबान सिंह विष्ट, विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी एसएल सेमवाल, अपर जिलाधिकारी कार्यालय, भट्टवाड़ी विनीत रावत, ब्लॉक प्रमुख डुंडा शैलेंद्र कोहली, ब्लॉक प्रमुख मोरी बचन सिंह पंवार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

17 नवंबर को बंद होंगे बदरीनाथ धाम के कपाट



शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर और नृसिंह मंदिर जोशीमठ में शीतकालीन पूजा एवं आयोजित होंगी। बता दें उत्तराखण्ड के चार धाम में केवरानथ धाम, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के कपाट नवंबर के पहले सप्ताह में बंद हो चुके हैं। इसके साथ ही रुद्रनाथ और तुंग

फायरिंग का आरोपी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल

पकड़े गये बदमाश
पर दर्ज हैं पचास
से अधिक मुकदमे



रुद्रपुर (उद्दीपन)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा की जिले को अपराध मुक्त करने की मुहिम के तहत बीती देर रात बन कर्मियों पर फायरिंग करने वाले कुख्यात अपराधी संगत सिंह उर्फ संगी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में बदमाश के पांच में गोली लगी है। बता दें पिछले दिनों गढ़पुर क्षेत्र में गश्त कर रही बन कर्मियों की टीम पर बन तस्करों ने फायरिंग की थी। मामले में तीन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भर्ती कराया। जानकारी मिलने पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पकड़े गये बदमाश का लम्बा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ वन विभाग व अन्य मामलों के 51 अभियोग पंजीकृत हैं। वह अपनी जमानत करा कर लगातार अपराध कर रहा था। पुलिस के मुताबिक अपराधी फायरिंग करने का आदी है। कुछ दिन कर चुकी है। अन्य की तलाशी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही थी। मामले में वांछित अभियुक्त संगत सिंह उर्फ संगी पुत्र कुलदीप सिंह निवासी हरिपुर हरसान थाना बाजपुर की गिरफ्तारी के गोली लगने से घायल हो गया।

लिए बुधवार देर रात पुलिस टीम पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोलियां चलाई जिसमें संगत सिंह पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया।

आप सभी को आस्था, पवित्रता
व सूर्य उपासना के महापर्व
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

धीरेन्द्र मिश्रा
जिलाध्यक्ष
भाजपा किसान मोर्चा, उदमसिंह नगर

आज सायं दूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी ब्रतधारी महिलाएं

रुद्रपुर। पूर्वांचल समाज के लोगों द्वारा सूर्य उपासना व आस्था के महा पर्व छठ पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी छठ पूजा स्थलों को आकर्षक रोशनी एवं फूल मालाओं से सजाया गया है। गत सायं खरना का आयोजन किया गया।



छठ पूजा को लेकर पूर्वांचली समाज उत्साहित, खूब हो रही खरीददारी

में खड़े होकर ब्रतधारी महिलायें अर्घ्य देंगी तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। कल 8 नवम्बर को प्रातः:

दूबते सूर्य को तालाब, नदी नहर के पानी में खड़े होकर अर्घ्य देकर पुत्र प्राप्ति, पति जीवित होने की दीर्घायु और परिवार की सुख समुद्दिष्ट संलग्नों में ब्रतधारी महिलायें सायं अस्त

किये जायेंगे जो देर रात तक जारी रहेंगे। 8 नवम्बर को प्रातः 6 बजे सूर्योदय अर्घ्य देखकर ब्रतधारी महिलायें छठ पूजा व्रत का पारायण करेंगी। जिसके पश्चात प्रसाद वितरित किया जायेगा। इसके साथ हीं अटरिया रेड, तीन पानी डाम, फुलसुंगा

खरीदारी की। जिसमें पीपल के पात्र, फल, सुपारी, सिंदूर, शकरकंदी, सुधनी, सूप, नारियल, बोस की टोकरी, गन्ना

से महोत्सव का शुभारंभ किया जायेगा।

दूबते सूर्य को तालाब, नदी नहर के पानी में खड़े होकर अर्घ्य देकर पुत्र प्राप्ति, पति जीवित होने की दीर्घायु और परिवार की सुख समुद्दिष्ट संलग्नों में ब्रतधारी महिलायें सायं अस्त

की कामना करेंगी। रविन्द्र नगर स्थित छठ

घाट में भी छठ पूजा महोत्सव पूर्वांचल

समाज समिति द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सायं 4 बजे से संध्या अर्घ्य

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

फुलसुंगी, शुक्ला फार्म तीन पानी, बगवाड़ा आदि छठ पूजा स्थलों में भी पूर्वांचल समाज के लोगों द्वारा छठ पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है।

जिसमें ब्रती महिलाओं ने मिट्टी के चूल्हे 6 बजे सूर्योदय अर्घ्य देकर ब्रतधारी तैयार कर आम की सूखी लकड़ी महिलायें अर्घ्य देंगी तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा करेंगी। आज नगर बाजारों में पूर्वांचली समाज के लोगों ने पूजा सामग्री की खूब

आदि शामिल हैं। ब्रतधारी महिलायें सभी पूजा सामग्री को बांस की टोकरी में सजाकर अपने परिजनों के साथ आज सायं छठ पूजा स्थल पर पहुंचेंगी। जहां

की कामना करेंगी। रविन्द्र नगर स्थित छठ

घाट में भी छठ पूजा महोत्सव पूर्वांचल

समाज समिति द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सायं 4 बजे से संध्या अर्घ्य

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। जिसके पश्चात शाम सात

बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

होते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी

तथा छठ वेदी की विधि विधान से पूजा अ

उत्तरांचल दर्पण

सम्पादकीय

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

मदरसे अवैध नहीं

सर्वोच्च अदालत ने सर्विधान की ऐतिहासिक व्याख्या करते हुए उप्र के मदरसों को 'संवैधानिक' करार दिया है। इस संदर्भ में उप्र मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 और उससे जुड़ा बोर्ड भी 'अवैध' नहीं है। यह कानून मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान बनाया गया था। यह न्यायिक फैसला अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ-साथ समता के पौलिक अधिकार और शिक्षा के अधिकार की व्याख्याएं भी करता है। सर्वोच्च न्यायिक पीठ का मानना है कि यह सर्विधान के मूल ढाँचे और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। दरअसल यह फैसला ऐसे देश में मौलिक और महत्वपूर्ण है, जहां अत्यधिक शैक्षिक संस्थान धार्मिक संस्थाओं, संगठनों से संबद्ध हैं। यह अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक समुदाय का सवाल नहीं है। यह शिक्षा के बुनियादी दायित्वों और सरोकारों से जुड़ा मामला है। तो फिर मदरसों पर आपति जाते हुए, उनसे संबद्ध कानून को, 'असंवैधानिक' कैसे करार दिया जा सकता है? न्यायिक पीठ ने आकलन करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है—चूंकि शिक्षण संस्थान या मदरसा किसी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा है और उसकी मजहबी शिक्षाओं को भी पढ़ाया जा रहा है, तो इसके मायने ये नहीं हैं कि वह संस्थान 'शिक्षा' की परिधि से बाहर कर दिया जाए। सर्विधान में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं कि वे अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। उसी के तहत मदरसे लगातार खुलते रहे हैं। दरअसल मदरसों को 'आतंकवाद के अड्डे' और 'इस्लाम के प्रचारक संस्थान' करार दिया जाता रहा है। इस संदर्भ में सर्वोच्च अदालत का फैसला है कि गण्य सरकार मदरसों के पाठ्यक्रम को नियमित और संशोधित कर सकती है। कुरान के साथ-साथ गणित और विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन मदरसे 'कामिल' और 'फाजिल' (स्नातक, स्नातकोत्तर) की जो डिग्रियां बांटते रहे हैं, वे 'अवैध' हैं, क्योंकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम के खिलाफ है। आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ही ऐसी डिग्रियां देने को अधिकृत हैं। सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला खारिज किया है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने अधिनियम को 'असंवैधानिक' माना था और उप्र के सभी मदरसों को बंद करने का आदेश दिया था। इस सर्वोच्च फैसले से मदरसों में पढ़ने वाले 12,34,388 छांतों का शैक्षिक भविष्य सुरक्षित रह सकेंगा और 13,364 मदरसों के अस्तित्व कायम रह सकेंगे। मदरसों में हजारों शिक्षक भी पढ़ाते हैं, लिहाजा वे एकदम बोरोजगार होने से बचते। मदरसों की जमात अलग-अलग है। कोई मदरसा राज्य सरकार से वित्ती अनुदान प्राप्त करता है, तो कोई ऐसी मदर को 'इस्लाम-विरोधी' मानते हुए नहीं लेते और अपने संसाधनों के बोते ही मदरसे चलते हैं। फिलहाल उप्र के मदरसा कानून पर सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया है। इसी के आधार पर देशभर के मदरसा बोर्ड और उनके प्रबंधक शीर्ष अदालत तक दस्तक दे सकते हैं। इस मामले में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी महत्वपूर्ण है—सर्विधान के मूल ढाँचे के उल्लंघन के लिए किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के उल्लंघन के लिए कानून को चुनौती भी दी जाती है, तो यह दिखाना जरूरी होगा कि कानून धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।' यह भी न्यायिक टिप्पणी की गई है कि किसी कानून को तभी रद्द कर सकते हैं, जब वह सर्विधान के भाग-3 के तहत मौलिक अधिकारों अथवा विधायी क्षमता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

मोबाइल से विणड़ता बचपन

एक समय था जब खाली जगह या आंगन में बच्चे आसानी से खेलते मिल जाती थीं। सर्वोच्च अधिकारी नहीं पड़ता था। बच्चों का साथ को जल्दी खेलने चले जाना उधर देर से आना घरवालों के लिए आम समस्या थी। बदलते समय के साथ साथ बच्चों की खेलों के प्रति रुचि बदलती गई। आज बदलते हुए समय के साथ सभी बच्चों का ध्यान बीड़ियों गेम की ओर आकर्षित होना मात्र। पिता के लिए चिंता का विषय बन गया है। दादी और दादाजी कहते थे कि बच्चों का ठंडा या गर्म पत्थर पर होता है। लेकिन आजकल न तो घर में दादाजी हैं नहीं दादाजी बच्चों को प्यार के बदले मोबाइल का प्रयोग मनोरंजन के लिए करने लगे हैं। आजकल पब्जी और फ्री फायर गेम का अधिक ट्रेन हो गया है। बच्चे इन गमों में अपना अधिक से अधिक समय बिता रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह एक हिंसात्मक गेम है। जिससे बच्चे भी हिंसक हो रहे हैं। जिससे उन्हें हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस गेम में ध्यान एकाग्र करना पड़ता है। जिससे खेलने वाले बच्चे गेम की लत लग जाती है।



ध्यान में रखती हैं पर बच्चों पर होने वाले प्रभाव का उनके अभिभावक ध्यान नहीं रखते। बच्चों को कई हद तक इस प्रकार से उसका आदि बनाना मात्रा-पिता का भी बहुत हाथ है। बच्चे इन गमों में अपना अधिक से अधिक समय बिता रहे हैं। आज बच्चे समाज में बैठकर ना तो माताजी पिताजी की याद आती है नहीं किसी दूसरे छोटे बच्चों की याद जो हिंसक हो रहे हैं। अगर मोबाइल हाथ में हो तो बच्चा भोजन करना भी भूल जाता है। बच्चे हार हाल में अपने मोबाइल की शैक को पूरा करने

के लिए कुछ भी करने के लिए वह तैयार रहते हैं। बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। यदि वह इस तरह के गेम के चक्कर में पड़कर स्वयं को बर्बाद कर लेंगे तो क्या होगा इस देश का। क्या होगा इस समाज का। मोबाइल का आविष्कार दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। जब से हाथ लगा इंसान के इंसान हो गया बेकार बेरोजगारी छुपाने में सहायक है यह यंत्र। मनोरंजन के छिपे हुए इसमें ढेरों मंत्र। छोटे से बड़ा इसमें ले रहा है मजा। ज्यादा मजा लेने से मिल रही है सजा। मिल रही है सजा होकर जिंदगी की परीक्षा में फेल। अंदर मोबाइल में टिका हो रही है जेल। हो रही है जेल बंद हुई खुली उड़न। अब मोबाइल में हस्ता मोबाइल से रोता इंसान। इसलिए मोबाइल का उपयोग कम से कम कर और बच्चों को उसे हमेशा दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए।

-गौरी दत्त जुकरिया, प्रधानाचार्य
परमानंद कांडपाल सरस्वती
शिशु मंदिर नानकमता साहिब

लोकतंत्र की हुई जीत: मौलाना रिजवी

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। उत्तरांचल मदरसा शिक्षा परिषद व हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मौलाना जाहिद रजा रिजवी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा बोर्ड को बहाल कर देश के संविधान और लोकतंत्र के हित में फैसले से कानून की जीत हुई है और सांप्रदायिकता फैलाने वालों को शिक्षक स्त मिली है। मौलाना जाहिद रजा रिजवी ने प्रेस को जारी अपने बयान में बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस कानून के तहत मदरसों को खेलें। मदरसा एकत्र यह सुनिश्चित करता है। कोटे ने इसी के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को भी जीत हुई है और सांप्रदायिकता की जीत हुई है। इसी के आधार पर देशभर के मदरसा बोर्ड और उनके प्रबंधक शीर्ष अदालत तक दस्तक दे सकते हैं। इस मामले में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी महत्वपूर्ण है—सर्विधान के मूल ढाँचे के उल्लंघन के लिए किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के उल्लंघन के लिए कानून को चुनौती भी दी जाती है, तो यह दिखाना जरूरी होगा कि कानून धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।' यह भी न्यायिक टिप्पणी की गई है कि किसी कानून को तभी रद्द कर सकते हैं, जब वह सर्विधान के भाग-3 के तहत मौलिक अधिकारों अथवा विधायी क्षमता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता है।



खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस कानून के तहत मदरसों को खेलें। मदरसा एकत्र यह सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूपी मदरसा एकत्र संवैधानिक रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड' अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि यूपी के मदरसे चलते रहेंगे। महासचिव अमरजीत सिंह, सचिव सरदार हरभजन सिंह, सुखवंत सिंह, पनू, प्रकाश सिंह, गुरदयाल सिंह, निर्मल सिंह, जरैल सिंह, डायरेक्टर सुखवंत सिंह पनू, प्रबंधक रणजीत सिंह, सुखवंत सिंह भुल्लर, रणजीत सिंह राणा से जीत ले दी गयी। इसके बारे में अनेक लोगों ने उनसे शिकायत कर हाउस टैक्स जमा करने की अवधि बढ़वाने की मांग

कोर्ट ने कहा कि मदरसा एकत्र से संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। न ही ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का किसी भी तरह से उल्लंघन करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए ग्रन्थांश के लिए बड़ी विद्या दीर्घ समय लगता है। यह अधिनियम के लिए ग्रन्थांश के लिए बड़ी विद्या दीर्घ समय लगता है। यह अधिनियम के लिए ग्रन्थांश के लिए बड़ी विद्या दीर्घ समय लगता है। यह अधिनियम के लिए ग्रन्थांश के लिए बड़ी विद्या दीर्घ समय लगता है। यह अधिनियम के लिए ग्रन्थांश के लिए बड़ी विद्या दीर्घ समय लगता ह

केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे तकनीकी एकीकरणः राज्यपाल

दे हरादून (उद संवाददाता)। राज्यपाल लेपिटनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने मंगलवार को ग्राफिक एग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आयोजित उत्तर क्षेत्र के कुलपतियों के सम्मेलन का शुभारंभ किया। भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा आयोजित दो दिवसीय इस सम्मेलन में नॉर्थ जोन के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रतिभाग कर रहे हैं, जबकि कई कुलपति इस सम्मेलन में वर्चुअल रूप से जुड़े। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज उच्च शिक्षा का परिदृश्य एक उल्लेखनीय परिवर्तन के द्वारा से गुजर रहा है। जैसे-जैसे वैश्विक परिवर्तन की



उच्च शिक्षा प्रणाली को तकनीकी नवाचारों के साथ जोड़ें ताकि हम एक ऐसे प्रगतिशील समाज की स्थापना कर सकें जो ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार पर आधारित हो, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का सामना आसानी से कर

वर्तमान समय की मांग है। राज्यपाल ने कहा कि हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी एकीकरण केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे बल्कि इनका ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी समान अवसर मिलना

सम्मेलन में उपस्थित उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सभी कुलपतियों का देवभूमि उत्तराखण्ड में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एआईयू का उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रहा है वह सराहनीय है, और यह संगठन 100 वर्षों की विरासत को संजोए हुए है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय तकनीक का समय है, विश्वविद्यालयों को नवाचारण को अपनाने और निरंतर रैंकिंग सुधारने पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश में भी सभी विश्वविद्यालयों का एक आधिकारिक संगठन बनाए जाने पर कार्य किया जा रहा है, जिससे सभी विश्वविद्यालय आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेज

नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप

गदरपुर (उद संवाददाता)। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक ग्राम के युवक बताया कि उसकी 16 वर्षीय बहन को दो युवक बहला फुसला कर अपने साथ गए हैं पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज कराया है प्राप्त नकारी के अनुसार नजदीकी ग्राम के एक युवक ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन को अंकुश पुत्र शिव कुमार, मनीष पुत्र विनोद निवासी गुमचैया ती 2 नवंबर को रात्रि लगभग 1 बजे अपने साथ बहला फुसला कर ले गए हैं पीड़ित बताया कि उन्होंने अपनी बहन की काफी खोजबीन की परंतु उनकी बहन का कोई नहीं चल पाया उन्होंने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उन्हें डर है कि उन्होंने युवक उनकी बहन के साथ कोई अनहोनी घटना घटित ना कर दें उन्होंने तहरीर बताया कि पीड़ित की बहन को जान माल का खतरा बना हुआ है तहरीर आधार पर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

પેજ એક કા રોષ...

आइएस अफसर के ऑफिस में.... उसके दोनों साथियों ने उनके साथ थापाई कर दी और भाग निकले। सचिव सुन्दरम के निर्देश पर एसएसपी अजय हांगे ने शहर कोतवाली पुलिस को आरोपित बाबी पंवार व उसके साथियों के विरुद्ध काल प्रार्थमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। जिस पर पुलिस ने देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उधर सचिव आर. नाशी सुन्दरम के कक्ष में बाबी पंवार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की घटना पर चिचावालय संघ ने गुरुवार को आपात बैठक बुलाई। सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम कक्ष में हुई दुर्व्यवहार की घटना का अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ ने निर्दा खी है। संघ के अध्यक्ष व सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि रिष्ट नौकरशाह और सचिवालय कर्मियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार खेदजनक सरकार को इस तरह के कृत्य करने वालों के खिलाफ कठोर कर्तव्यादी करनी चाहिए।

उत्तराखण्ड में विभिन्न जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन और सभी सार्वजनिक वायाओं को बेहतर बनाएगी। इसके अतिरिक्त, इससे कुशल और जलवायु-अनुकूल लाला आपूर्ति प्रणालियों को विकसित करके चार शहरों- चंपावत, किंच्छा, कोटद्वारा र विकासनगर में जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा। परियोजना के तहत हल्द्वानी 16 किलोमीटर लंबी जलवायु-अनुकूल सड़कों का निर्माण किया जाएगा, आधक यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी, साथ ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक में चलाई जाएगी। आपदा के समय शहर में बचाव के लिए बाढ़ प्रबंधन में सुधार लिए 36 किलोमीटर लंबी वर्षा जल निकासी तथा सड़क किनारे नालियों का निर्माण किया जाएगा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाएगी। लोगों को वर्जनिक सेवाएं और बेहतर ढंग से मुहैया कराने के लिए हरित-प्रमाणित प्रशासनिक रेसर तथा बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। अन्य चार शहरों में, इस परियोजना का लक्ष्य स्पार्ट वाटर मीटर, 26 ट्यूबवेल, नए जलाशयों और 3.5 मिलियन लीटर टिटिदिन क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र के निर्माण के साथ 1,024 किलोमीटर लंबी ललवायु-अनुकूल पाइपलाइनें बिछाकर प्रत्येक घर तक जल पहुंचाना है। विकासनगर सीवेज शोधन सुविधाओं द्वारा स्वच्छता के दायरे को बढ़ाया जाएगा, जिससे लगभग 000 घरों को लाभ होगा। इस परियोजना के माध्यम से बस चालान, टिकटिंग और निक्ट चार्जिंग स्टेशनों के रख-रखाव से आजीविका चलाने के कौशल के प्रशिक्षण सीपी पहल महिलाओं के लिए की जाएगी। जल आपूर्ति प्रणालियों की निगरानी में हलाओं की भूमिका के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के तहत जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं के संचालन और प्रबंधन में कमज़ोर परिवारों को शामिल रखते हुए महिलाओं में क्षमता निर्माण किया जाएगा। यूरोपीय निवेश बैंक 191 मिलियन लार्ग की गणि से इस परियोजना को समानांतर आधार पर सह-विनापेषित कर रहा है।

ਅਵਧ ਖੁਨਨ ਮਤਾਨ ਟ੍ਰਕ ਪਕਤੁ

जसपुर(उद्द सवाददाता)। वन विभाग न अवध खनन पर कारबाह करत हुए काशीपुर-जसपुर मोटर मार्ग पर एनएच-734 हाईवे पर तीन ट्रकों को अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा। प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश पर उप प्रभागीय वनाधिकारी जसपुर और वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जसपुर रेज ने पतरामपुर स्टाफ के



साथ मिलकर यह अभियान चलाया। कार्वाई के दौरान बिना परिवहन पत्र के तीन ट्रक पकड़े गए, जिनमें पतरामपुर बन परिसर में सुरक्षित रूप से खड़ा किया गया है। पकड़े गए ट्रकों में यूपी 20 बीटी 3280, यूपी 17 टी 3831, और यूपी बीटी 0142 शामिल हैं, जिनमें से सभी 12 टायर वाले हैं। बन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन वाहनों के खिलाफ नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

साढबर सिक्योरिटी में करियर की स्वर्णिम संभावनाएँ: पटनायक

मुरादाबाद (उद व्यूरो)। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी – गांधीनगर, गुजरात के एडजंक्ट प्रोफेसर एंड ग्लोबल सर्विसेज व्हाइजेक टेक्नोलॉजीज प्रा.लि. के हेड कर्नल (डॉ.) मिलन पटनायक बोले, देश में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनर्स की कमी है, इसीलिए युवाओं के लिए इस क्षेत्र में करियर की असीम और स्वर्णिम संभावनाएँ हैं। साइबर सुरक्षा ट्रीनिंग प्रोग्राम की शुरूआत स्कूल स्तर से ही होनी चाहिए। कर्नल पटनायक बोले, कम्प्यूटर साइंस, एमबीए, बीबीए, बीए आदि कोर्सेज के संग भी साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। हमें साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होना अनिवार्य है। कर्नल पटनायक तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद की ओर से साइबर सिक्योरिटी एज ए करियर: आईटी वर्सेज ओटी पाथवे पर आयोजित लोडरशिप टॉक सीरीज सेंशन-08 में बोतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। इससे पहले कर्नल (डॉ.) मिलन, डीन एकेडमिक्स प्रो. मंजुला जैन, टिमिट के निदेशक प्रो. विधिन जैन, एपीकल्चर के डीन प्रो. प्रवीण जैन आदि ने अँडी में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ञविलास करके लीडरशिप टॉक सीरीज सेंशन-08 का शुभारम्भ किया। डीन एकेडमिक्स प्रो. मंजुला जैन ने स्वागत भाषण, जबकि प्रो. विधिन जैन ने बोट ऑफ थैंक्स दिया। टॉक सीरीज में मुख्य वक्ता को बुके देकर स्वागत किया गया। कर्नल पटनायक बोले, गवर्मेंट, सेना, एयरफोर्स, हैल्थकेयर आदि सेक्टर्स साइबर अपराध के मुख्य टारगेट हैं। साइबर अपराधी डार्कवेब से टारगेट क्षेत्र के डाटा को प्राप्त कर लेते हैं और साइबर अपराध को अंजाम देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक देश दूसरे देश की मेडिकल हिस्ट्री का डेटा प्राप्त करके उस देश के हैल्थ स्टेट्स को जान सकता है। इस डाटा का प्रयोग करके वह सिविल वॉर या युद्ध जैसे हालात भी बना सकते हैं। डॉ. पटनायक ने डाटा की चोरी को रोकने पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने ओटी बनाम आईटी डिवाइसेज पर बोलते हुए बताया, आईटी डिवाइसज के डाटा को

लेकर हम ज्यादा फिकरमंद रहते हैं, लेकिन ओटी डिवाइसेज को साइबर क्राइम से बचाना ज्यादा जरूरी है। ओटी डिवाइसेज को साइबर क्राइम से बचाने में आने वाली चुनौतियों पर भी गहनता से प्रकाश डाला। अंत में स्मृति चिन्ह देकर मुख्य वक्ता को सम्मानित किया गया। राष्ट्रगान के संग टॉक सीरीज का समापन हआ। कार्यक्रम में फैकल्टीज- डॉ. अभिषेक, आरती चौधरी, मिस सिमरन सिंह, श्री राजेश कुमार, मिस अंशिका श्रीवास्तव, मिस अपूर्वा, श्री अकाश चौहान, ब्रजपाल सिंह रावत, मिस कुमुषा के संग-संग डेंटल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, फाइन आर्ट्स कॉलेज के 300 से अधिक छात्र- छात्राएं मैजूद रहे। संचालन असिस्टेंट डायरेक्टर एकडंभिक्स डॉ. नेहा आनन्द ने किया।

संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता फंडे पर झूली

गदरपुर। थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता का शब सर्दीध हालात में फंदे से लटका मिला। परिजन महिला को एक निजी अस्पताल लाए थे। सूचना मिलने पर सिड्कुल पुलिस ने शब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। गदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिपलिया नंबर एक निवासी राजन विश्वास की पत्नी 24 वर्षीया अनीता विश्वास शाम चार बजे साड़ी के फंदे से लटकी मिली। परिजन अनीता को रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में लेकर आए। चिकित्सकों ने पुलिस को मामले से अवगत कराया। सूचना मिलने पर सिड्कुल चौकी से पहुंची पुलिस टीम ने अनीता के शब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। बुधवार को पोस्टमार्टम के उपरांत अनीता का ग्राम पिपलिया नंबर एक में अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने बताया करीब पांच वर्ष पूर्व राजन विश्वास का शक्तिवर्फ निवासी अनीता से विवाह हुआ था। उनके पांच और तीन साल के दो बेटे हैं। कुछ समय से पति पत्नी में पारिवारिक कारणों के चलते विवाह चल रहा था।

भगत, कश्चार उपाध्याय, सारता कंपूर, मुख्य सचिव राधा रत्नड़ी, मुख्य सचिव जस्थान सुधारणु पंत, केन्द्रीय वाणिज्य सचिव सुनील बड्ड्वाल, प्रोफेसर सुरेखा गावाल सहित कई अतिथि मौजूद रहे।

जल संस्थान की चौखट पर.....के बक्त सड़क के कुछ हिस्से में पानी ही नहीं हो जाता है, जिससे राहियरों को आवागमन में खासी असुविधा होती है। आगामी छ ही दिनों में इसी मार्ग से गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शोभायात्रा भी कलनी है और शोभा यात्रा के दौरान भी अगर सड़क यूं ही पानी- पानी रही, तो

भायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का मुश्किलों से सामना होना तय है। नालियों के सिलेब से.... से समाधान करें। इस दौरान उन्होंने नगरीय क्षेत्र में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नालियों के ऊपर सिलेब से 15 नामों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि अतिक्रमण हटाने से उल्लेखनीय जिलाधिकारी की मध्यस्थता में व्यापार मंडल के साथ बैठक की जाएगी। उक्ते बाद मुनादी के वीडियोग्राफी कर नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग और लोक भाग की संयुक्त टीम अभियान चलाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करेगी। शामने ते पांच प्रलिम्स उपाधीशकों नगर में काशीपुर की सीओ अनुष्ठ

शासन न पाच पुलस उपाधाक्षका..... नगर म काशीपुर का सआ अनुष्ठानोला जनपद पौड़ी गढवाल स्थानांतरित किया है। राकेश रावत को सआईडी कटर देहरादून से जनपद हरिद्वार में स्थानांतरित किया गया है।

संस्थापक-स्व० हरनामदास सुखीजा एवं **स्व० तिलकराज सुखीजा**
स्वामित्वाधिकारी प्रकाशक एवं मुद्रक परमपाल सुखीजा द्वारा उत्तरांचल दर्पण प्रकाशनम्,
पालघाट नगर नेहरू पथ परामिति अस्सी गढ़ बांधुपुरा (उत्तरांचल) में प्रकाशित दर्पणम्।

श्याम टाकोजा राड, रुद्रपुर, ऊधमसिंहगढ़ (उत्तराखण्ड) से मुद्रित एवं प्रकाशित
सम्पादक- परमपाल सुखीजा
एप्रलआई नं.: UTTTHIN/2002/8732 समस्त विवाद रूद्रपुर न्यायालय के अधीन होंगे।

mail-darpan.rdr@gmail.com, www.uttaranchaldarpan.in
फोन-245886(O)245701(Fax),9897427585,9897427586(Mob.)

तालाबों में पल रहे काल, जीका जंजाल

नहीं थम रहा प्रतिबंधित थाई मांगुर का उत्पादन, इंसानी जिंदगियों को गंभीर बीमारियों का खतरा

■ मनोज श्रीवास्तव

काशीपुर। पर्यावरण के दिन-ब-दिन बिगड़ते हालात एवं गंभीर बीमारियों के खतरे से निपटने के लिए जहां सरकार एक और नित नई

इस कार्यशैली से सरकार के राजकाज पर भी अब सवाल खड़े होने लगे। तमाम बार अखबारों में प्रमुखता से प्रतिबंधित मांगुर मछली के उत्पाद एवं व्यापार की खबर को प्रकाशित करने के बावजूद

ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद निवासी एक व्यक्ति है। इसी तरह मानपुर रोड कुंडेश्वरी के अलावा ग्राम बांसखेड़ा, अलीगंज रोड महुआखेड़ा गंज एवं दहियाल रोड समेत कुंडा थाना क्षेत्र के

अभी लगभग माह भर पूर्व कुंडेश्वरी क्षेत्र के एक तालाब पर करंट लगाने से हुई दोहरी मौत के बाद मांगुर मछली पालन का मामला प्रकाश में आया। विधायीय अधिकारियों की मौजूदगी में पुष्टि होने पर



योजनाओं को धरातल पर लाने के प्रयास में है वही मत्स्य विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी सरकार के इस प्रयासों को पलीता लगाते हुए खुद की जेब गर्म तैयार हैं। इस तालाब का स्वामी तहसील

जिला प्रशासन कोई सार्थक कदम नहीं उठा सका। रामनगर रोड स्थित फिरोजपुर के महज एक तालाब में 25 कुंतल से भी अधिक का माल लगभग करने में लगे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों की

विभिन्न तालाबों में भारी तादाद में प्रतिबंधित मांगुर मछली पाले जाने की सूचना है। अपुष्ट सूत्रों का कहना है कि इस पूरे गड़बड़ घोटाले में मत्स्य निरीक्षक की भूमिका बेहद सर्विध है। यहां बता दें कि

तालाब सीज कर दिया गया लेकिन उसके बाद भी पता चला है कि विधायीय अधिकारियों की हठ धर्मिता के कारण सीज तालाब से मछलियां निकाल ली गई। तालाब स्वामी के ऐसे क्षेत्र में और

एनजीटी ने वर्ष 2000 में लगाया था प्रतिबंध

काशीपुर। थाई मांगुर मछली के पालन से पर्यावरण पर होने वाले भारी खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने वर्ष 2000 में इसके पालन व व्यापार को बैन कर दिया था। इस मांसाहारी मछली से स्थानीय मछलियों समेत अन्य जलीय जीव जंतुओं को गंभीर खतरा पैदा हो गया। मांगुर मछली के सेवन से घातक बीमारियों का खतरा है। मांगुर को अधिकांश प्रदूषण व खराब पानी में पाला जाता है। यह कम पानी और धूप में भी लंबे समय तक जीवित रह सकती है। उसके पालन में एंटीबायोटिक और अन्य रसायन का प्रयोग होता है जो इंसानी जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। स्थानीय मत्स्य पालक चारों के रूप में वेस्टेज मास को भी तालाबों में डाल रहे हैं। काशीपुर की मछली बाजार के अलावा यहां उत्पाद की जा रही प्रतिबंधित मांगुर मछली की भारी भरकम खेत उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न बाजारों में भेजी जा रही है।

भी तालाब है जिसमें प्रतिबंधित थाई की मछली पालकों को गिरफ्तार भी किया गया लेकिन इसके बाद सरकार की लंबर कार्य प्रणाली के चलते मत्स्य पालकों के हौसले एक बार फिर बुलंद हो उठे। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद प्रतिबंधित प्रजाति का बड़े पैमाने पर सूचना पर सरकार एक्टिव नजर आई।

बस हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि

दिनेशपुर(उद संवाददाता)। भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा सहित तमाम लोगों ने मर्चूला के पास कूपी गांव में हुई भीषण बस दुर्घटना में मृतकों के प्रति



शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिनेशपुर सुभाष चौक पर मोमबत्ती जलाकर सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी रखा गया।

कांट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन 9 नवंबर को

काशीपुर(उद संवाददाता)। प्रदेश के राजकीय ठेकेदारों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श करने हेतु लोक निर्माण विभाग की काशीपुर कॉर्टेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आगामी नौ नवंबर दिन शनिवार को रामनगर रोड स्थित अनन्या

रीजेस्ट्री में एक अधिवेशन होने जा रहा है जिसके विशिष्ट अतिथि लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत होंगे। अधिवेशन के आयोजक एवं काशीपुर कॉर्टेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी कमलेंद्र सिंह और महासचिव मुकेश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिवेशन प्रातः 10 बजे शुरू होगा और इसमें समूचे उत्तराखण्ड के सभी खंडों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं सचिव भग लौंगे और राज्य के राजकीय ठेकेदारों की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। श्री सिंह एवं श्री गोयल ने बताया कि समस्याओं के निवान हेतु प्रदेश के सभी सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के विधायक इस अधिवेशन में सादर आमंत्रित हैं ताकि जनप्रतिनिधियों के समक्ष समस्याएं रखकर सरकार से उनका समाधान कराया जा सके और सभी जनप्रतिनिधि अधिवेशन में भाग लेकर खुद देख सकें कि प्रदेश के विकास का पर्याय माने जाने वाले राज्य के राजकीय ठेकेदार सरकार की अनदेखी के चलते खुद कितने परेशान हैं।

अलग-अलग स्थानों से तीन मोटरसाइकिलें चोरी

काशीपुर(उद संवाददाता)। कुंडेश्वरी पुलिस की लापरवाह कार्यशैली के चलते क्षेत्र में अपराधी तत्वों के हौसले तेजी से बुलंद होते जा रहे हैं। हाल-फिलहाल अज्ञात चोरों ने भारतीय प्रबंधन संस्थान के आवासीय परिसर व पार्किंग को निशाना बनाते हुए वहां से दो मोटरसाइकिलें पार कर दी। इसी के साथ क्षेत्र से एक अन्य मोटरसाइकिल भी चोरों द्वारा उड़ाई गई है। चोरों की ताबड़ता घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस खनन भरे वाहनों से अवैध वसूली के

(आईआईएम) परिसर में रहने वाले नितेश पंत पुत्र हरिशंद्र ने बताया कि इस घटना से एक दिन पूर्व यानी 4 नवंबर को आईआईएम के पार्किंग में खड़ी उसकी पैशन प्लस मोटरसाइकिल संचाया थी। 65 एसी/8528 अज्ञात चोरों द्वारा उड़ा दी गई। ऐसे ही मोटरसाइकिल चोरों के करने मामले में पुलिस को तहरीर देकर भट्टा कॉलोनी कुंडेश्वरी निवासी हरिशंद्र पांडे पुत्र जय किशन पांडे ने बताया कि वीते 29 अक्टूबर को उसकी टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल संचाया थी। 18 एसी/1445 घर के पास से अज्ञात चोरों द्वारा उड़ा दी गई।

दुकानदार की हत्या के एक सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा कोई सुराग

नानकमत्ता(उद संवाददाता)। थाना क्षेत्र में दुकानदार की बेरहमी की हत्या का एक सप्ताह बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है, पुलिस की कई टीमें युवक की हत्या करने वाले की तलाश कर रही है। गैरतलब है कि 1 नवंबर को शमशान घाट के सामने बगिया में एक युवक की पहचान तीन दिन बाद गुरुद्वारा रोड के दुकानदार हीरा सिंह के रूप में हुई थी, जो कि मूल रूप से चौड़ा कोट थाना पाटी जिला चंपावत का रहने वाला था, हीरा सिंह के पिता के शर द्वारा बोला गया था कि उसके पुत्र की गुरुद्वारा रोड में केक की दुकान है, जिससे उनका 4 दिन से संपर्क नहीं हो पाया था, जिसकी खोज में नानकमत्ता आने पर उन्हें पुत्र की हत्या का पता चला। हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस एक सप्ताह के बाद भी हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है, बताया जा रहा है कि मृतक युवक एक अन्य युवक के साथ टुकड़क पर बैठकर घटनास्थल के आसपास गया था, जो कि अक्टूबर वहां पर जाता था, पुलिस ने शक के अधिकार पर पुराने से लोगों से पूछताछ किया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है।

पेट्रोल पंप के ऑफिस से कीमती आईफोन चोरी, दो लोग नामजद

काशीपुर(उद संवाददाता)। पेट्रोल पंप पर कार्यरत एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर दो लोगों पर कीमती आईफोन चुराने का गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। कुंडेश्वरी रोड जसपुर खुर्द स्थित इन्दर फिलिंग स्टेशन पर कार्यरत शिवम पुत्र रामगोपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते 30 अक्टूबर को भट्टा कॉलोनी दोहरी वकील कुंडेश्वरी निवासी अनुज राम पुत्र संजय शर्मा तथा राजेश कुमार उर्फ जहरीला पुत्र अतर सिंह निवासी उपरोक्त पेट्रोल पंप पर पहुंचे और मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के बाद पंप के रेस्टरूम में आराम करने लगे। इस दोरान आरोप है कि दोनों ने ऑफिस में चार्जिंग में लगे सफेद रंग के कीमती आईफोन 11 को मौके से गायब कर दिया और फरार हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

मधुमक्खी के हमले में तीन घायल

खटीमा(उद संवाददाता)।

मधुमक्खी के हमले में एक युवक घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को डिग्री कॉलेज रोड पर जा रहे आदर्श कॉलोनी निवासी आशीष पर मधुमक्खी ने हमला कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने कंबल डालकर उसे बचाया। लोगों ने आग जलाकर मधुमक्खियों को भगाया। अस्पताल में इ